## FOR EVALUATOR'S USE ONLY


Sub. Code: Optional Paper

Dairy Processing & Technology: Paper – III

Time: 3 Hours / Maximum Marks: 200 / Total Pages: 32

<b>X</b>		0; 48	e ilikiri	axiiiiu		IKS	200	/ Tota	al Pag	ges	32	Mind of the second seco
		олот /	(FF				EV	alua	tion	lable	9 17	(For Evaluator's Us
ÖN			i Ac	ÓN	TE 4	KI-B	90000 19000	Section 1	TI PA	RT-C	H 5	Grand Totals
		a a i	AC		C-1		A	SON.	E-1	E-2	AC	PARTA E
				21				33		1 /	1	PART BE
2				22		"		34				PART CE
3				23				35	/			Total
4				24				36/	/ _			(-) Marks
5				25				/37				Fmal Total
.6				26		ı	1	38				Marks in Words
7				27				39				and an analysis of the second
8				28		7			•			
9				29	$\overline{/}$							
10				30								Remarks of Evaluator/Chief Ev.
11			,	31								
12				32					i			· .
13												
14					$\neg$						/	
15		1							-	$\overline{/}$		
16						,						
17									/	_		
18 (								$\overline{}$		-		Remarks of Scrutinise
19								/				
20				_	<del>-  </del>	$\dashv$	$\nearrow \uparrow$	_  -		-		
Total	•.•			_		7			<del>-  </del>	$\dashv$		
Evalu ator's Sign												·

...binoDj



## PART - Aभाग - अ

Mark अंव

Note:	Attempt all the twenty questions. Each question carries 2 marks. Answer not exceed 15 words.
नोट :	समस्त २० प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिये २ अंक निर्धारित हैं। उत्तर १ से अधिक नहीं होना चाहिये।
1 What	is phosphatase test ? ट्रेज परीक्षण क्या है ?
2 What दूध के	is the difference between milk plasma and milk serum ? प्लाज्मा तथा सीरम में क्या अन्तर है?
3 Under किन पा	what circumstance C.O.B. Test is carried out ? रेस्थितियों में 'गर्म करने पर थक्का बनना' परीक्षण किया जाता है?
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 1 – 11 1	

	न केसिन प्रभाजन के न	<b>।</b> म बताइए।		
			· .	·
	_		···	·. <del></del>
				*
		<del></del>		
			· .	
		-		<del></del>
· ·			<del></del>	
***	G . 11 111- 9	•		
	w Sodium milk ?	<b>+</b> 2		
कम मात्रा वा	ला सोडियम दूध क्या है	? !		
	·	<u>.                                    </u>		. <u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>		
	<u> </u>			··
	<del>.</del>			
			i	
What chang	ges are observed in का किण्वक द्वारा विघर	milk when lactose टन होता है तब दूध	is enzymaticali; में क्या परिवर्तन	होता है?
जब लेक्टोस				
जब लेक्टोस			·	
जब लेक्टोस				
जब लेक्टोस		-		
जब लेक्टोस				
जब लेक्टोस				
जब लेक्टोस				
जब लेक्टोस - II ]		4		[Cont

7	Give the gross composition of cow, buffalo and goat's milk.
	गाय, भैंस तथा बकरी के दूध के मुख्य तत्वों का संघटन दीजिये।
	· 
	·
_	
8	How will you detect boric acid in milk?
	आप दूध में बोरिक अम्ल की उपस्थिति कैसे ज्ञात करेंगे ?
	•
_	
٠.	
9	What do you mean by buffering of milk?
	दूग्ध के उभयप्रतिरोधन से आप क्या समझते हैं?
·	
	THE ATTENDED TO THE ATTENDED T

11	– <b>I</b> I ]	6	(Contd
		-	
12	1114	ोर पर प्रयुक्त दो एन्टीऑक्सीडेन्ट के ना	
12	Name two antioxidants	most commonly used for preservation	n of ghee and their permitted
	'जामन' के क्या अर्थ हैं ?		
11	What do you understal	nd by the term 'starter' ?	

योगर्ट बनाने हेतु काम	sed for the production of Yog में आने वाले जीवाणुओं के नाम ह	urt. रीजिये ।
		<del>,</del>
<u> </u>		
	<del></del>	
		<del></del>
14 Briefly write about th	ne nutritive value of milk.	
दूध की पोषकता के बारे	े में मंत्रेय में चिकिता	
2	ग वस्ति न त्लाख्या	
		·
<del></del>	<del></del>	
<del></del>		
<del></del>		
How does specific gra	vity of milk calculated ?	
दूध के आपेक्षिक घनत्व क	गणना कैसे की जाती है ?	
	। करा का जाता है ह	
<del></del>		
<del></del>		
<del></del>		

16	Explain vacreation.	
	वेक्रियेशन समझाइये।	
		<del>-</del>
17	Name two tests used for the detection of added glucose in milk.	
1/	दूध में ग्लुकोज़ की मिलावट को जांचने के दो परीक्षणों के नाम बताइये।	
	दूव म र्शुकारा का निवायर का निवाय के नि	
		<u> </u>
18	Explain cream ripening.	
	क्रीम राइपनिंग को समझाइये।	
_		
-		<u>-</u>
_		
11	- II }	[Contd.

nimiminiminiminimi Goura

	What is auto-oxidation of fat ?		
	वसा का ओटो–ऑक्सिडेशन क्या है?		
_		·	
_			
	Name the main classes of chemical capitizers		
	Name the main classes of chemical sanitizers. रासायनिक सेनीटाइजर्स के मुख्य वर्गों के नाम दीजिये।		
	Name the main classes of chemical sanitizers. रासायनिक सेनीटाइजर्स के मुख्य वर्गों के नाम दीजिये।		
	Name the main classes of chemical sanitizers. रासायनिक सेनीटाइजर्स के मुख्य वर्गों के नाम दीजिये।		
_	Name the main classes of chemical sanitizers. रासायनिक सेनीटाइजर्स के मुख्य वर्गों के नाम दीजिये।		
_	Name the main classes of chemical sanitizers. रासायनिक सेनीटाइजर्स के मुख्य वर्गों के नाम दीजिये।		
	Name the main classes of chemical sanitizers. रासायनिक सेनीटाइजर्स के मुख्य वर्गों के नाम दीजिये।		
	Name the main classes of chemical sanitizers. रासायनिक सेनीटाइजर्स के मुख्य वर्गों के नाम दीजिये।		
	रासायनिक सेनीटाइजर्स के मुख्य वर्गों के नाम दीजिये।		

## PART - B

Marks: 60

अंक : 60

भाग – व

Attempt all the twelve questions. Each question carries 5 marks. Answer should

not exceed 50 words.

Note:

समस्त १२ प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के ५ अंक निर्धारित हैं। उत्तर ५० शब्दों से नोट ः

अधिक नहीं होना चाहिए।

केसिन का	জাবক ক।	प पपा ल							
							<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
<u></u> _				***	<del></del>				
		<del></del>	<u>.</u>	<del></del>		<u>.</u>	<del></del> -		
	<u></u> .	<u> </u>	. <u> </u>						
<u> </u>	<u> </u>	-		<u> </u>					
	<u> </u>	<del></del> .				<u></u>		<u></u> _	
						<del></del>	<del></del>		 
Explain 1	Lactose r	netabolis	m.						
Explain ] लेक्टोस च	Lactose r यापचय सग	netabolis मझाइये ।	m.						
Explain ी लेक्टोस च	Lactose r यापचय सग	netabolis नझाइये ।	m.						
Explain ी लेक्टोस च	Lactose r यापचय सग	netabolis नझाइये ।	m.						
Explain ] लेक्टोस च	Lactose r यापचय सम	netabolis मझाइये ।	m.						
Explain ी लेक्टोस च	Lactose r यापचय सग	netabolis नझाइये ।	m.						
Explain ] लेक्टोस च	Lactose r यापचय सग	netabolis नझाइये ।	m.						
Explain ी लेक्टोस च	Lactose r यापचय सम	netabolis मझाइये ।	m.						
Explain ी लेक्टोस च	Lactose r यापचय सग	netabolis नझाइये ।	m.						
Explain ी लेक्टोस च	Lactose r यापचय सग	netabolis नझाइये ।	m.						
Explain ी लेक्टोस च	Lactose r यापचय सग	netabolis नझाइये ।	m.						
Explain ी लेक्टोस च	Lactose r यापचय सग	netabolis नझाइये ।	m.						

		<del></del>		<del>-</del> -		<del></del> -		
								_ <del>-</del>
							·	
		·						
Write in b एच. ए. सी	orief abo . सी. पी.	ut H.A. (H.A.	C.C.P. C.C.P.)	के बारे	में संक्षेप	में लिखि	 ये।	
Write in b एच. ए. सी	orief abo	ut H.A.	C.C.P. C.C.P.)	के बारे	में संक्षेप	में लिखि	ये। 	
Write in b एच. ए. सी	prief abo . सी. पी.	ut H.A.	C.C.P.	के बारे	में संक्षेप	में लिखि	ये।	
Write in b एच. ए. सी	orief abo	ut H.A.	C.C.P.	के बारे	में संक्षेप		ये।	
Write in b एच. ए. सी	prief abo	ut H.A.	C.C.P.	के बारे	में संक्षेप			
Write in b एच. ए. सी	orief abo	ut H.A.	C.C.P.	के बारे	में संक्षेप			
Write in b एच. ए. सी	orief abo	ut H.A. (H.A.	C.C.P.	के बारे	में संक्षेप			

_	
_	
	Why is stabiliser used in Ice-cream ? How does it functions ? आईसक्रीम में स्थायीकारक (stabiliser) क्यों मिलाया जाता है? यह किस प्रकार कार्य करता

	lipolysis and its c स और इसके कारण	causes.	
ici avaigiti	ता जार इसका कार्	ग समझाइय ।	
<del></del> -			 <u> </u>
		<u> </u>	 
-	<del></del>		 <u> </u>
	<u> </u>	<del></del>	 
	<del>_</del>		 
			<u> </u>
	<del></del> -	·	
<u> </u>			 -
			 ·
·		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	 
<del></del>		·	 
	,		

	How salting of cheese curd is चीज़ कर्ड का लवणन किस प्रकार	किया जाता ६:				
			<u>.</u>			
_		_ <del>.</del>				
					<u></u> .	
	A	<u>.</u>			<del></del>	
			. s.s			<del></del>
			<del></del>		· <u>·</u>	
	·					
_	<u></u>			<u></u>		
	What is Hansa test ? हान्सा जांच क्या है?					
	हान्सा जांच क्या है?					
_	हान्सा जांच क्या है?					

संघ															
			<u> </u>	_	-		· ·	<del></del>	_			_	_	<u>.</u>	
	<del></del>	·						<del></del>							
											,				
	-		<u> </u>	•			<u>.</u>			<u> </u>	<u>.</u>		<u>-</u>		
										<del>_</del> .					_
						_			••	-					
						·									
		_	<u>.</u>					<u>.</u>					_		
		-													
			<del></del> -												
Wha दूध	t is sv	veet ा थक	curdli का बन	ng ना	 of n क्या	nilk ? होता	'Exp き?す	olain पंक्षेप	in bi में व्य	rief. मख्या	कीि	ाये।			
Wha दूध	t is sv का मीट	weet ा थव	curdii का बन	ng तना	of n क्या	nilk ? होता	'Exp है ? व	olain संक्षेप	in bi में व्य	rief. गाख्या	कीि	ाये।			
Wha दूध	t is sv का मीट	weet ा थव	curdii का बन	ng नि	of n क्या	ilk ? होता	'Exp 青?a	olain संक्षेप	in bi में व्य	rief. माख्या	कीि	ाये।			
Wha दूध	t is sv का मीट	weet ा थव	curdii का बन	ng नना	of n क्या	nilk ? होता	'Exp	olain संक्षेप	in bi में व्य	rief. माख्या	कीि	ाये।			_
Wha दूध	t is sv का मीट	veet ा थक	curdii काबन	ing तना	of n क्या	nilk ? होता	े Exp है ?	olain संक्षेप	in bi में व्य	rief. माख्या	कीि	ाये।			-
Wha दूध	t is sv का मीट	veet ा थव	curdii का बन	ing व	of n क्या	nilk ? होता	े Exp है ? उ	olain संक्षेप	in bi में व्य	rief. गाख्या	कीि	ाये।			
Wha दूध	t is sv का मीट	veet ा थव	curdli का बन	ing व	of n क्या	nilk ? होता	े Exp है ? उ	olain संक्षेप	in bi	rief. गाख्या	कीि	ाये।			
Wha दूध	t is sv का मीट	weet ा थव	curdli का बन	ing तना	of n क्या	nilk ? होता	P Exp	olain संक्षेप	in bi	rief. मख्या	कीि	ाये।			
Wha दूध	t is sv का मीट	weet ा थव	curdli का बन	ing त	of n क्या	nilk ? होता	ै Exp है ? उ	olain संक्षेप	in br	rief. मख्या	कीि	ाये।			
Wha दूध	का माट	ा <b>थ</b> क	curdli का बन	<del></del>	क्या	होता	₹? <del>1</del>	olain संक्षेप	में <i>व्य</i>	rief. मख्या					
दूध	का माट	ा थक	का बन	<b>Т</b>	क्या	होता 	₹? ₹	right u	में <i>व्य</i>	गख्या					
दूध	का माट	ा थक	का बन	<del></del>	क्या	होता 	₹? ₹	right u	में <i>व्य</i>	गख्या					
दूध	का माट	ा थक	का बन	<del></del>	क्या	होता 	₹? ₹	right u	में <i>व्य</i>	गख्या					

PART - C भाग – स

Marks: 100

अंक : 100

Note:	Attempt any five questions.	Each	question	carries	20	marks.	Answer	should	not
	avecad 200 words								

कोई भी ५ प्रश्न कीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए २० अंक निर्धारित हैं। उत्तर २०० शब्दों से नोट ः अधिक नहीं होना चाहिए।

	Des चीज	scribe बनार	the ने में	mechan होनेवाली	ism and प्रक्रिया	l che तथा	mical रासाय	reacti ानिक डि	ons क्रया	occu की 1	ır dur वेवेचन	ing c ाकीरि	heese: नए।	making.	
						-									
	<u></u>				, <u>,,</u>			<del>-</del>					<u> </u>		
							~		•						
		-													
									***					<u>.</u> .	
		· · ·										<del></del>	<u> </u>		
						_,									
_		_													
_			<del>-</del>												
					<del>,</del>										
								-		<del>-</del>					
								<u>.</u>					-		
					<del></del>										
_															

[Conte... 

<del></del>							
	•				·-		Vt.
<del></del> -	<del></del>	····	·		<del></del>		·-··
<del></del>		, 	***				
		•			<u></u> -		
<del></del>			<del></del>	·	·		<del></del>
-		·			<del></del> .		
_		•					
-	<b>-</b> -	· ·	<u> </u>		<del></del>		
<del></del> :	<del></del>	<u> </u>		<u> </u>			
		· 					
						<u></u>	
<del></del>	<del>-</del> .			<del></del>	<del>.</del>	<del></del>	
	<del>.</del>		<del>-</del>				
					-		·
	<del></del> .	<del>-</del>	<del></del>			<del></del>	
				·			
		•	<del>_</del>	<del>-</del>			
	<del></del> ,	<del></del>	<del></del>			·	
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>					
					<b></b>		
<del></del>	<del></del> ;			<del></del>			
<del></del>			<u></u> .	<del></del> .	<del>_</del>		<del></del> .
				•			
	,			<del></del>			
		<del></del> -	·- <u> </u>		<del></del>	<del></del>	
	·	<u>.</u>					
	· · · · · ·	<del></del>		,	·		
<del></del>	<del></del> .		<del></del>			<del></del>	
	-						
				<del></del>	··		

34	in a लेवि	a plan ह्यक स	t. Exj टारटर	plain क	the न्वर	facto का र	ors ( वंबर्ध	on न	whi एवं	ch th बनान	e pro n एक	paga	tion :	and	prep	arat	ion o	f culti	ire de	rations :pends. · बनाने
	को	प्रभावि	रत क	रने	वाले	कार	कों '	को	सम	झाइये	1									
	<u> </u>		<u>.</u>												_					
				·																-
		<del></del> .																		
		<u> </u>	•																_	
		_									•							_		
																<del></del>				
		<del>_</del>									<u> </u>	<u></u>			<u> </u>					
			· · <del></del>									·· <b>-</b>								
				•				•										.,	•	
					f										_					
										-		<u></u>								
			•	<u></u>	<del>-</del>															-

1 – H ]						10								
<del></del>			<del></del> -			·		<del></del> -			·			
<del></del> _			<u> </u>					<del></del>	·	<u> </u>	<del></del>	<u> </u>		_
<del></del>		<u> </u>						<del></del> -		<del>.</del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		—
						<u> </u>	<u> </u>		· . <u>.</u>	<del></del>			•	
										·-		·		
			· ·							-	_			
		<u> </u>			<u>.</u>			<b></b>						
<del>_</del>						_	_	_						
	· <del>-</del> ·· · · ·		<u> </u>		<del></del>		<u>:</u>							
			<del>-</del>	_			<u></u>	_						
	·				٠,							<del></del>		
<del></del>		. <u>.</u>					·	<u> </u>						
<del></del>	<u> </u>				<u>.</u>	<del>.</del>	<u></u>		<del></del>			<u></u> .	<u>.                                    </u>	
<del>_</del>	<del></del>	<del>.</del>	<u> </u>		·			<del></del>		<del>.</del> .				
	<del></del>	<del></del> .				<u>.                                    </u>				_			<del>.</del>	
			_	<del>,</del>			<del></del>	<del>-</del>	<del></del> -	<del></del> -			<u> </u>	
<del></del>	<del></del> -			•				•	_		<u> </u>	<u> </u>		
					_						·		<del></del>	
			<u> </u>			<del>-</del>	<del>-</del> .			<del>.</del>	<u> </u>			
			<u>-</u> ·				-		· <del>*</del> I.				<u></u>	
														<del>.</del>
						-	•			-	·· .	-	-	_
				_			<del></del> ,				···			
				_							•		, w <u>.</u>	

5	HA	<b>CCE</b>	en en	ıhan	ce i	foc	od :	safe	tv	?										How किस	
		खाद्य																			
	. <del>_</del>																			<u></u> .	<del></del> -
	_																			 ·	<del></del>
		••									•										
					<u></u> .						<del></del> -						_				<u> </u>
_											·						 				
										<del></del>							 •				
_																 					
	<del></del> .							•							<del></del>			<u>-</u>			
_																 •					
				_								·									
																	·				
																	 				<u> </u>
					<u></u>								· <u> </u>				 				
		=								. <u>.</u>				<del></del>					···		— -
	<u> </u>																			 	
																					<b></b>

n-nj		21	<del>-</del> .	[Contd
-				
			·	
	<del></del>	·	<u> </u>	
· .				
			<u> </u>	
				*
		<del></del>		
		·	<del>-</del>	
				·
<del></del>	·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				<u> </u>
• <u> </u>	<del></del>			
<u></u>				

MAMAMAMAMAM Contd...

	write d डेयरी के लिखए।	उपयोगी	जल	के	जैविक	प्रदूषण	के	नेयंत्रण	की	विविध्	विधियाँ	समझाइये	तथा	जैविक	मानक
		_		_		<del> </del>		<u> </u>	_		<u></u>	<del>-</del> -	<u> </u>		<del></del> -
		<del></del> -													<del></del> .
-	<u>-</u>	<del>.</del>		<u>.</u>	<u> </u>				-			·	<u>-</u>	<u>-</u> .	
<u> </u>		· .'										<u> </u>			·
	<del></del>					<u> </u>	·				·		_	_	
-						<u>.</u>		<u>.                                    </u>		_					
								_		_			_		
														<u>v</u>	
_	<u> </u>				_							<del></del>			
	<u> </u>													<u> </u>	
		<del>.</del>								<del></del>				·	
·		·			<del>.</del>					<del>-</del>					
	<del></del> -	<i>i</i>				<del></del>									
<u> </u>	<u>-</u> -										<u>_</u> _				
		<del></del> _					_								
	····								•	,	<u> </u>				
						· "						<del></del>		<u>.</u>	
	_	<u>-</u>			<u>-</u> -				_		<u>-</u> .			<u> </u>	
								· · · · · ·		··				<del></del>	
		,						<u> </u>		<del></del>	<del></del>				
	<del></del> -							<del>-</del>						<u> </u>	
		<del></del>			·										
	<u> </u>														
		. <u> </u>												<del>-</del>	
<b>– II</b>	1						22							(Cont	_

11 -

[Contd...

11 — Д }		23		7 ( <b>02</b> /0)	[Contd
		·	<del>-</del>		
	<del></del> _	<u>.                                    </u>			
	, <del>-</del>	<del> </del>	<del></del>	<del></del>	
				<u></u>	<del></del>
		<del>-</del>	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<del></del>	<del> </del>			
		<u>.</u>			
	<u> </u>	<del></del>			
<u> </u>					-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	,	<del> </del>		<del></del>	<del>-</del>
		<del></del>		<del>-</del>	<del></del>
	·	<del></del>		<del></del>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	<del>-</del>	<del></del> -	<u> </u>	<del></del>	· ·
•		<del></del>	<del></del>	<del></del>	<b>.</b>
		·	<u> </u>		
·	<del> </del>				<u>-</u>
	<u>-</u>		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·

Burgana en an Burgana de la composição d

मीठे संघनित	दूध में	लेक्टोज	क्रिस्टलस	(lactose	crystals)	का क्या	महत्व	है ? इस	का क्या	समाधा	न हैं
,					•		•	•		· -	
											-
								<u>.</u>			
								<u> </u>			
	<u></u>										
					•						
			<u></u>								
			•								
				,			<u> </u>				
						·			•		<del>- ''</del>
					•						
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
									hara		

24

11 – 11 ]

MUNIMINIMI [Contd...

					·
		<del></del>		<del></del>	· · · ·
n , ,					
<u> </u>				<u> </u>	
	<u></u>	-			
	, <u>.</u>	···	·	<del></del>	<del></del>
		<del>-</del>			
		•			
					<del>-</del>
	<del></del>	·	· · ·		·
		<del></del>		<del></del>	
				<del></del> ;	
			·	·	
<del></del>	<del></del>			- <del></del>	
	<del></del>		· · ·	·	
			, <u></u>		
<u> </u>					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>-</u>	
	·	·			
•				_	*
		<del></del>	'		
1 11 }		25			

Mainininii Coutq...

	दुग्ध स्कन्दन	oriefly the mo	) हेतू रेनेट	की रा	<sub>सर्गाठा</sub> सायनिक	or rennet क्रिया संक्षे	ın milk पर्भे लिरि	coagulation. इये।
	<u> </u>							- • •
			<del></del>					
			<del></del> -					
		·						
								<u>-</u> -
			<del></del> -					
						. —		
							- <u></u> -	
				<u> </u>	· 		_	
		<b></b>						
					_			
			-					
			<u> </u>					
	<u> </u>		——— <u> </u>	<del></del>			<u></u>	
				_				
			_					
	<del></del>							
		<u></u>	<del></del>				<u></u> _	<b></b> _
	<del></del>							
<u> </u>		<del></del>			· <del></del>			
		<u></u>						<del>·</del>

[Contd...

·
•
·
•

11 - 11 }

[Contd...

39	Ex] चेड्डा	plain the र चीज	var (che	ious phy eddar c	ysico :heese	-chen e) के	nical ch निर्माण	ıang में	ges that क्यरिंग	take place (curing)	during	g cu	ring o	fche	ddar	chees
	एव	रासायनि	क	परिवर्तनो	ों का	वर्णन	कीजि	ए।	~~~	(ouring)	आक्रपा	40	समय	हान	वाले	भौतिव
				<u> </u>		——					<del></del>		<u></u>		<u> </u>	
													<u> </u>			<u>·</u>
																<u> </u>
			_								<del></del>				_	
<u> </u>							<u></u>						<u> </u>			
<del></del>		<u> </u>					·	···								
		<del>-</del>								<del></del> -						
					<del></del> _			_							<u>.                                    </u>	
					<del>-</del>			_						<del>-</del>		
							<del></del>		<del></del> -						<del>-</del>	
						- - 				<del>-</del>						<del></del> -
						<u></u>				<del></del>				<u> </u>		<del></del> -
								_	<del>-</del>							<del></del>
	——.							<u>.</u>		<del>-</del>						_
							<del>-</del>		<u> </u>	<del></del>						· —
									<del></del> -							
																_
				<del></del> -	<del></del> _											_
<del></del>					<del></del> – –											_
n j							28									_

[Contd...

11 – 11 ]			29	,		ԱՄՈՄՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄԱՄ
-	<u> </u>					
						<del></del>
						<u>-</u>
				· <del></del> -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		<del></del>		<del></del>		
			<u>.</u>	<del>27.</del>		
		<del></del>				
			· 			
						<del>.</del>
		••				
						···- <u>-</u>
	<u> </u>			·		<u> </u>
				<u> </u>	<del></del>	
		•		-		

## SPACE FOR ROUGH WORK/रफ कार्य के लिए जगह

и-пј.

| Conte